

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5—जुलाई 11, 2014 (आषाढ़ 14, 1936)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5—JULY 11, 2014 (ASADHA 14, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 जून 2014

सं. डीपीपर्स-I2014/0063/3/33/2009-पर्स-1--श्री एस.सी.शुक्ला ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, दिनांक 30.04.2014 के अपराहन से अपर पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स-I2014/0064/3/85/2014-पर्स-1--श्री यू.के. चौधरी ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, दिनांक 30.04.2014 (अपराहन) से पुलिस उपाधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

दिनांक 14 जून 2014

सं. डीपीपर्स-I/2014/2049/3/54/2013-पर्स-I—राष्ट्रपति, के.अ. ब्यूरो के निम्नलिखित पुलिस उपाधीक्षकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	मोड	पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्ति की तिथि
1	एस.के. मंडल	प्रतिनियुक्ति	3.4.2013
2	सुशील कुमार	प्रतिनियुक्ति	8.4.2013
3	परमजीत सिंह कुटलहरिया	प्रतिनियुक्ति	1.5.2013
4	एस.एन. शर्मा	प्रतिनियुक्ति	14.5.2013
5	अजय क्रांति शर्मा	प्रतिनियुक्ति	3.6.2013
6	विजय कुमार	प्रतिनियुक्ति	3.6.2013
7	आर.डी. शर्मा	प्रतिनियुक्ति	3.6.2013
8	अर्जुन सिंह	प्रतिनियुक्ति	11.6.2013
9	कमलजीत सिंह	प्रतिनियुक्ति	12.6.2013
10	संजीव कुमार सिंह	प्रतिनियुक्ति	19.6.2013
11	एम. कृष्णा मोहन	प्रतिनियुक्ति	28.6.2013
12	मुकुल रावत	प्रतिनियुक्ति	1.7.2013
13	टी.आर. नेवार	प्रतिनियुक्ति	22.7.2013
14	अवध राज सिंह	प्रतिनियुक्ति	30.7.2013
15	सलिल कपूर	प्रतिनियुक्ति	16.9.2013
16	सर्वेश कुमार यादव	प्रतिनियुक्ति	15.1.2014
17	श्याम दत्त	आमेलन	30.9.2013
18	एन.आर. मीणा	आमेलन	7.10.2013
19	आर.के. चट्टा	आमेलन	9.1.2014

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

दिनांक 18 जून 2014

सं. डीपीपर्स.I/2014/0065/3/72/2012(पीटी)--श्री जी. वेंकटा स्वामी गौड, वरिष्ठ लोक अभियोजक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एसीबी, बेंगलूर ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, दिनांक 31.05.2014 के अपराह्न से वरिष्ठ लोक अभियोजक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय
महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2010

सं. ओ.दो. 3746/07-कार्मिक(चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ० शिवाजी सिंह, चिकित्सा अधिकारी (इरला 7237), 180 बटालियन, के०रि०पु०बल को संबंधित बटालियन की नफरी से दिनांक 1/07/2010 (पूर्वाह्न) से निकाला गया है। तदनुसार, इस बल की नफरी से उनका नाम दिनांक 01/07/2010 (पूर्वाह्न) से हटाया जाता है।

टी. चंद्रशेखरन
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

नई दिल्ली—110003, दिनांक 12 जून 2014

सं. ओ.दो.3882/11—कार्मिक(चिकित्सा)—सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. रणविजय प्रताप, विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी(पैथालॉजी)/उप कमाण्डेंट(ईरला 9845), संयुक्त अस्पताल, के.रि.पु.बल, राँची, द्वारा दिनांक 02/06/2014(अपराह्न) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, उक्त अधिकारी का नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् दिनांक 02/06/2014(अपराह्न) से हटाया जाता है।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो.3882/11—कार्मिक(चिकित्सा)—सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. प्रणव ज्योति डेका विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी(पैथालॉजी)/उप कमाण्डेंट(ईरला 8649), संयुक्त अस्पताल, के.रि.पु.बल, गुवाहाटी, द्वारा दिनांक 31/05/2014(अपराह्न) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, उक्त अधिकारी का नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् दिनांक 31/05/2014(अपराह्न) से हटाया जाता है।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली—110003, दिनांक 13 जून 2014

सं. ओ.दो.6661/2014—कार्मिक.डी.ए-4—श्री अजीत कुमार, उप कमाण्डेंट (ईरला-6661), 44 बटालियन, केरिपुबल के सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 31/05/2014 (अपराह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 31/05/2014 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

मूल चन्द पंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली—110011, दिनांक 11 जून 2014

सं.: 24/2008—प्रशा. III/109—निदेशक, जनगणना कार्य, महाराष्ट्र के पद का अतिरिक्त प्रभार धारण करने वाले श्री रंजीत सिंह देओल, भा.प्र.से. (महाराष्ट्र : 98) को दिनांक 31.05.2014 के अपराह्न से पद से कार्यभार मुक्त कर दिया गया है।

राम गोपाल
अवर सचिव

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 5 जून 2014

सं. ओई (ईएण्डसी)/ईआईवी/पी/14-15/85—

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती)	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	राजलक्ष्मी एन.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.5.2014 (अधिवर्षिता)
2.	राजलक्ष्मी बी.(सं.1)	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.5.2014 (अधिवर्षिता)
3.	जकरिया एम. कोच्चुकांजिरम	सहायक लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय, एरणाकुलम	31.5.2014 (अधिवर्षिता)

हस्ता./—अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-85, दिनांक 16 जून 2014

सं. पीडी/6(2)2013-भर्ती-III/2014/6906—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री हरिष गौ. साहू, सहायक लेखाकार, भापअ केंद्र, मुंबई को दिनांक 03.06.2014 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक (रु. 9300—34800/—) के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4800/— में इस अनुसंधान केंद्र में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 23 जून 2014

सं. एईसी-1 (1)/14/7789--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) का गठन वर्ष 2014 हेतु अधिसूचित करने के संबंध में जारी इस विभाग की दिनांक 15 जनवरी 2014 की अधिसूचना सं. एईसी-1(1)/14/615 में आंशिक संशोधन करते हुए, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री नृपेन्द्र मिश्रा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित कुमार डोवाल को दिनांक 18 जून 2014 से प्रभावी रूप में परमाणु ऊर्जा आयोग के नये सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं :-

- | | | | |
|-----|---|---|----------------|
| 1. | डॉ. रतन कुमार सिन्हा
सचिव, भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग | - | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. | श्री नृपेन्द्र मिश्रा
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव | - | सदस्य |
| 3. | श्री अजित कुमार डोवाल
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार | - | सदस्य |
| 4. | श्री अजित कुमार सेठ
मंत्रिमंडल सचिव | - | सदस्य |
| 5. | श्रीमती सुजाता सिंह
विदेश सचिव | - | सदस्य |
| 6. | श्री सुदर्शनम श्रीनिवासन
सचिव, भारत सरकार | - | सदस्य (वित्त) |
| 7. | डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन
पूर्व अध्यक्ष, एईसी | - | सदस्य |
| 8. | प्रो. पी. रामा राव
पूर्व सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | - | सदस्य |
| 9. | डॉ. अनिल काकोडकर
पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं
होमी भाभा चेयर प्रोफेसर | - | सदस्य |
| 10. | डॉ. आर. बी. गोवर
निदेशक, होमी भाभा राष्ट्रीय अनुसंधान तथा
होमी भाभा चेयर प्रोफेसर | - | सदस्य |
| 11. | श्री शेखर बसु
निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र | - | सदस्य |

अरूण श्रीवास्तव
सचिव, परमाणु ऊर्जा आयोग

भारी पानी बोर्ड

मुंबई- 400094, दिनांक 21 फरवरी 2014

सं.: भापाबो/भर्ती/4(14)/2013-Vol.I/942--भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (कोटा/तूतीकोरिन/तालचेर/मणुगुरु) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एफ', वेतन बैंड रु. 37,400-67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 87,00/- को उनके नाम के सामने लिखी तारीख के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक उसी संयंत्र में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'जी', वेतन बैंड रु. 37,400-67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,900/- के रूप में नियुक्त करते हैं:-

क्रम संख्या	नाम	प्रभार / एकक	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्रीमती रीना घोष	भापाबो(कें.का)	01.07.2013
2.	जैतुल हक	भापाबो(कें.का)	01.07.2013
3.	दिनेश शर्मा	कोटा	01.07.2013
4.	के. बालसुब्रमणियन	तूतीकोरिन	01.07.2013
5.	जयंत कुमार सुंदर रे	तालचेर	01.07.2013
6.	मदापति राम वेंकट राजेश	मणुगुरु	01.07.2013
7.	एनी आनंद राव	मणुगुरु	01.07.2013
8.	परमेश्वरन पिल्लै सुरेंद्रन	मणुगुरु	01.07.2013

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके द्वारा धारित निचले पद का पदभार उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से छोड़ दिया है।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 16 जून 2014

सं. नाईस/काप्रभ I./03/48/843--राष्ट्रपति, श्रीमती एम पुष्पा रेखा, सहायक कार्मिक अधिकारी, का. कू. 4555, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र हैदराबाद को वेतन बैंड-3 में रु. 15,600-39,100/- व ग्रेड वेतन 6,600/- सहित दिनांक 05.02.2014 से 19.04.2014 तक अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी-III

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले और 63 कम्पनियों के संबंध में।

जयपुर-302001, दिनांक 18 जून 2014

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/5/724--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी गई हैं :-

क्र.सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
1	2	3
01	028573	राधिका एग्रोबेस प्राईवेट लिमिटेड
02	019494	इटर्नल हार्ट केयर सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
03	028531	शिल्पी विश्वकर्मा होटल एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
04	020886	जैनीर सोफ्टवेयर एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
05	036293	अेरा रेनेवेब्ल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
06	031563	इशी इन्टरैक्टिव आईटी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
07	039623	नविका ग्लोबल आउटसोर्सिंग टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
08	035670	स्मालबोर्ड इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
09	024487	महावीर बायोफ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
10	037769	श्रीमातेश्वरी कम्प्यूटर इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
11	025276	स्टार बायोमास पावर प्राईवेट लिमिटेड
12	035100	जैना सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
13	024856	सुपरफाईन लैण्डमार्क प्राईवेट लिमिटेड
14	024378	मिनेश बिल्डर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
15	030885	श्री विनायक फ्यूचर विजन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
16	021295	शिवमकृपा कन्सट्रक्शन (इंजिनियरिंग) प्राईवेट लिमिटेड
17	034534	बेनसन न्यूडलस प्राईवेट लिमिटेड
18	032862	स्पाईस चिली हॉस्पिटलिटीज प्राईवेट लिमिटेड
19	034555	त्रिवेणी महिमा स्पाईसेज प्राईवेट लिमिटेड
20	039853	ज्ञानेश हैल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
21	025434	ल्यूक्रिएटिव स्टॉक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
22	023021	सत्येश केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
23	034535	रतन प्राईम इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
24	034551	रेनबो ज्यूस प्राईवेट लिमिटेड
25	034550	नारायण कृपा आयरन इग्नोटस प्राईवेट लिमिटेड
26	034548	मदर मिल्क टोस्ट प्राईवेट लिमिटेड
27	034556	मनोरम क्रोकरी प्राईवेट लिमिटेड
28	034545	ज्योति मस्टरड ऑयल प्राईवेट लिमिटेड
29	034554	हैल्थी एडेड माइक्रोन्यूट्रेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
30	034547	ग्रीन बी जम एण्ड जेली प्राईवेट लिमिटेड
31	034537	गौरी टेक्सप्रिन्ट प्राईवेट लिमिटेड
32	034546	फूजन ऑटो साइलेन्सर्स प्राईवेट लिमिटेड
33	034542	क्लासिक प्राइम प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
34	032640	श्रेया स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड
35	026665	अमरनाथ कॉलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
36	037080	स्टारस्टाईल बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड
37	038728	स्क्वूवायर क्यूब बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड
38	034713	रीकोसिस ग्रीन पावर प्राईवेट लिमिटेड
39	015173	राजस्थान इन्फोमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
40	035955	एप्पसवे सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
41	023860	फ्री साईज ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड
42	041126	त्रिरूपति कम्प्यूसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
43	027223	श्री सिटी बिल्डस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
44	023504	केडीके लैण्डमार्क प्राईवेट लिमिटेड
45	031802	सिमोना साडीज प्राईवेट लिमिटेड
46	017236	जीन कुशल सुरी प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
47	005392	एम.पी. ब्लोक्स एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
48	043325	रुफ वेब सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
49	018771	अनोखीवेव डिजाईन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
50	039459	इनमास एग्रो इण्डिया लिमिटेड
51	035602	जी आर स्क्रैप्स प्राईवेट लिमिटेड
52	035457	दीप ज्योति मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
53	021649	सनलाईट गारटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
54	016161	एम प्लस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
55	032907	स्वर्णभूमि माईन्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
56	031890	स्वर्ण भूमि ट्रेडमार्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
57	032784	सिस्टम हण्डेड बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
58	021826	एल्टीट्यूडस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
59	019228	कोसमोस ट्रेड पार्क डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
60	031094	सौरव होम्स प्राईवेट लिमिटेड
61	035102	क्यूसीडी टेक्नोलोजी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
62	029444	सार इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
63	029564	विनायक यूसीजी एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड

इमरान ए. सिद्दीकी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
एवं सहायक शासकीय समापक
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753014, दिनांक 30 मई 2014

सं. आर.ओ.सि.560(5)/2014/692—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	पं.सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
01	15-13807	मेसर्स एसपी मल्टीप्रोजेक्टस् एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
02	15-13808	मेसर्स आशा इन्फ्रा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
03	15-13809	मेसर्स एड्वेण्ट हेल्थ क्यार् प्राईवेट लिमिटेड
04	15-13813	मेसर्स गोल्डेन् एज् ब्येल्नेस् मीसन् लिमिटेड
05	15-13815	मेसर्स राइट् प्रोटेक्सन् सिक्युरिटी सर्वीसेस् प्राईवेट लिमिटेड
06	15-13816	मेसर्स भोत्रा कन्सल्टान्टस् प्राईवेट लिमिटेड
07	15-13818	मेसर्स स्टेलेन्ट् कन्सल्टान्ति सर्वीसेस् प्राईवेट लिमिटेड
08	15-13821	मेसर्स आइटी इन्फोपार्क् सल्यूसन्स् प्राईवेट लिमिटेड
09	15-13827	मेसर्स गोल्डेन् आइज् सो बीज् प्राईवेट लिमिटेड
10	15-13831	मेसर्स साइ टेक्नोप्रोजेक्टस् प्राईवेट लिमिटेड
11	15-13833	मेसर्स साउर्दान् रिअलकन्सल्ट्रकसन् प्राईवेट लिमिटेड
12	15-13835	मेसर्स यूबिएन् सप्टवैआर् सल्यूसन्स् प्राईवेट लिमिटेड
13	15-13838	मेसर्स एकदन्त इन्फ्राटेक् प्राईवेट लिमिटेड
14	15-13839	मेसर्स जय मातादी प्रोडक्टस् मार्केटिन् प्राईवेट लिमिटेड
15	15-13840	मेसर्स साम् इन्फ्रा प्रोजेक्टस् प्राईवेट लिमिटेड
16	15-13841	मेसर्स अन्जनेय एस्टेटस् प्राईवेट लिमिटेड
17	15-13844	मेसर्स श्रीया इस्टकन् प्राईवेट लिमिटेड
18	15-13848	मेसर्स जेएस् माइनिंग्स् एण्ड लजिस्टिक्स् प्राईवेट लिमिटेड
19	15-13849	मेसर्स सद्गूरू मोबाइल् रिचार्ज सर्वीसेस् प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
20	15-13859	मेसर्स गार्डन् भियू रेसर्टस् प्राईवेट लिमिटेड
21	15-13868	मेसर्स डिभइन् देभकन् प्राईवेट लिमिटेड
22	15-13873	मेसर्स कोनार्क अटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
23	15-13874	मेसर्स सहजी मास् मेडिया प्राईवेट लिमिटेड
24	15-13881	मेसर्स स्टार सेवन् मार्केटिन्ग प्राईवेट लिमिटेड
25	15-13882	मेसर्स सेवन् कलर्स मानेजमेन्ट (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
26	15-13883	मेसर्स जेनीथ् इस्टकन् प्राईवेट लिमिटेड
27	15-13884	मेसर्स निलाचल् इन्जिनिअरीन्ग एण्ड कन्सल्टकसन् प्राईवेट लिमिटेड
28	15-13887	मेसर्स दीगीमा अटोमेसन् इन्जीनिअरीन्ग प्राईवेट लिमिटेड
29	15-13888	मेसर्स डी एण्ड डी इस्टकन् प्राईवेट लिमिटेड
30	15-13893	मेसर्स कूबेर बोईत प्रोजेक्टस् प्राईवेट लिमिटेड
31	15-13896	मेसर्स श्री साइ गनेश् आग्रो लिमिटेड
32	15-13897	मेसर्स देभासम् इन्फ्रा इन्फ्रा इन्डिया लिमिटेड
33	15-13901	मेसर्स ओम् टेक् एण्ड प्रपरटिज प्राईवेट लिमिटेड
34	15-13902	मेसर्स हाइक् सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
35	15-13904	मेसर्स रिप् इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
36	15-13905	मेसर्स भरसा भेन्चर् लिमिटेड
37	15-13909	मेसर्स ओर्गीस् इन्फ्रा प्रापरटिज प्राईवेट लिमिटेड
38	15-13911	मेसर्स ओम् मल्टिसर्विसेस् प्राईवेट लिमिटेड
39	15-13912	मेसर्स भगवानसाइ कन्सल्टान्सी प्राईवेट लिमिटेड
40	15-13915	मेसर्स सन्दीप् इन्फोटेक् प्राईवेट लिमिटेड
41	15-13920	मेसर्स साइ सूनदर् रिअल्कन् प्राईवेट लिमिटेड
42	15-13926	मेसर्स ईजि टच् ट्रेडिन्ग प्राईवेट लिमिटेड
43	15-13927	मेसर्स एडिफाय एडुभेन्चर् प्राईवेट लिमिटेड
44	15-13929	मेसर्स लगीण् फेसनस् प्राईवेट लिमिटेड
45	15-13931	मेसर्स ईभोरी हुड इन्फ्रास्ट्रक्चर् प्राईवेट लिमिटेड
46	15-13932	मेसर्स एम् एम् पी इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड
47	15-13936	मेसर्स भई भई रिअलकन् प्राईवेट लिमिटेड
48	15-13939	मेसर्स व्याइजमेन् रिसेर्सेस् (इन्डिआ) लिमिटेड
49	15-13944	मेसर्स एबिआइ इनक्लूसिभ् प्राईवेट लिमिटेड
50	15-13948	मेसर्स एकेएम् इन्फ्रास्ट्रक्चर् प्राईवेट लिमिटेड
51	15-13950	मेसर्स किवोर् इन्डिया मेडिकेयार् सर्भिसेस् प्राईवेट लिमिटेड
52	15-13953	मेसर्स उत्कल् व्येलनेस् सर्विसेस् प्राईवेट लिमिटेड
53	15-13954	मेसर्स स्टार् मल्टी टेक् सल्यूसन् प्राईवेट लिमिटेड
54	15-13955	मेसर्स जेवफ् बायोटेक् प्राईवेट लिमिटेड
55	15-13958	मेसर्स आभास् इन्डिया आग्रो लिमिटेड
56	15-13961	मेसर्स एल0 एन0 फायार्-एक्स् प्राईवेट लिमिटेड
57	15-13963	मेसर्स साइ स्मृती इन्जिनियरीन्ग प्राईवेट लिमिटेड
58	15-13965	मेसर्स फेडेराल् एक्विजम् एनड लजिस्टिक्स् प्राईवेट लिमिटेड
59	15-13966	मेसर्स स्वस्तीक् इन्डिआ मल्टीप्रोजेक्टस् लिमिटेड

1	2	3
60	15-13968	मेसर्स आईरिस् टेक्स्ट प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
61	15-13969	मेसर्स बरबील् भेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
62	15-13971	मेसर्स फुचर् भिजन् इन्फ्राटेक् प्राईवेट लिमिटेड
63	15-13973	मेसर्स इन्का लाइफस्टाइल् प्राईवेट लिमिटेड
64	15-13976	मेसर्स मातादी बीदूलता रिअल्कन् प्राईवेट लिमिटेड
65	15-13979	मेसर्स सुन्दरमनी मेटालर्जीकाल प्राईवेट लिमिटेड
66	15-13980	मेसर्स मेलेक्सिस् टेक्सल्यूसन्स प्राईवेट लिमिटेड
67	15-13982	मेसर्स एभोस् इन्फ्रास्ट्रक्चर् प्राईवेट लिमिटेड
68	15-13983	मेसर्स ओरिटेक् इन्फ्रा प्रोजेक्टस् प्राईवेट लिमिटेड
69	15-13985	मेसर्स जान्डर् टेक् प्रोसेस् प्राईवेट लिमिटेड
70	15-13987	मेसर्स हेक्सागन् इन्फ्रा-प्रोजेक्टस् प्राईवेट लिमिटेड
71	15-13990	मेसर्स सर्मीस्था डेभलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
72	15-13992	मेसर्स ओरीयान् इन्फ्रा प्रोजेक्टस् प्राईवेट लिमिटेड
73	15-13995	मेसर्स समिर् टेक्नो इन्जिनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
74	15-13997	मेसर्स स्रधा सबुरी इन्फ्रास्ट्रक्चर् प्राईवेट लिमिटेड
75	15-13999	मेसर्स मा हिन्गूला डेभलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

सी. के. दास
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
ओडिशा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753014, दिनांक 19 जून 2014

सं. आर.ओ.सि.560(5)/2014/771—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	पं.सं.	कम्पनी का नाम
01	15-07047	मेसर्स पूस्पक् मिन्टेक् प्राईवेट लिमिटेड
02	15-07953	मेसर्स ठाकूर फील एन् फ़र्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
03	15-15648	मेसर्स एक्वूसन् मेडिटेक् (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
04	15-16242	मेसर्स एस्एस्एस्एन् मार्केटिन्ग प्राईवेट लिमिटेड

बी. मीश्रा
कम्पनी रजिस्ट्रार
ओडिशा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बैंगलूर, दिनांक 20 जून 2014

सं. ल.सी/560(5) एफटीड - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

Sl. No	CIN	कंपनी नाम
1	2	3
01	U04520KA1987PTC008690	एस एन एस गैलेक्सी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
02	U72200KA2012PTC064022	दिजीकलन इनफार्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
03	U72200KA2006PTC038524	एस पि आई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
04	U65992KA1996PTC019594	विट्टल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
05	U70109KA2011PTC061314	नीति बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
06	U67190KA2008PTC046055	अमिता कैपिटल अड्विसेर्स प्राइवेट लिमिटेड
07	U67120KA1985PTC006723	पुस्कार इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
08	U51102KA1997PTC022886	श्री भूमि इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
09	U63040KA2009PTC050956	ब्लू आर्किड हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड
10	U51909KA2006PTC041305	एस त्रिअग्नि कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
11	U93000KA2012PTC062044	इ -खोज इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
12	U72200KA2013PTC069241	एनआईपिरे सॉफ्टवेयर ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
13	U55101KA2005PTC037894	येलो सफायर हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड
14	U51900KA2010PTC055437	क्वैच इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
15	U80902KA2009PTC051602	नेट लॉब्स एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
16	U51909KA2010PTC054324	हनीबी डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
17	U64202KA2006PTC040676	इंफोकिंग चैनल एन्टेटेनेर्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U74900KA2011PTC056509	लर्न इट अकादमी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
19	U51109KA2008PTC047179	रेनती बिज़नेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
20	U24296KA2010PTC052475	रेनती फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U01409KA1994PTC015180	महोबा एंड अरकोट एग्री प्राइवेट लिमिटेड
22	U72200KA2007PTC043561	आईटी प्रोसेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
23	U74900KA2009PTC051828	लाइफ साइंसेज हब सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U72200KA2007PTC043604	एसआरडीजी सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
25	U72200KA2011PTC058409	परिगी बीआईपि टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
26	U72200KA2009PTC050192	ईएल टेचिन्वेन्टिओ सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
27	U72200KA2012PTC062082	कटडरगे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
28	U25202KA2007PTC041472	साई शक्ति रागव पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
29	U72900KA2002PTC030509	क्ससर्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
30	U32108KA2008PTC046336	मैक टेली एक्सेस प्राइवेट लिमिटेड
31	U40101KA2010PTC052606	कुमारधारा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
32	U74110KA2003PTC032099	एचएसएल इंफोसेक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
33	U55101KA2008PTC046398	किनारा हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
34	U72200KA2005PTC036133	टावरी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
35	U74140KA2004PTC034518	ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
36	U72200KA2005PTC037515	टेक्नोस्त सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
37	U74900KA2006PTC040292	पिएमएन जनरल एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
38	U72200KA2011PTC057480	आयुर इंजीनियरिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
39	U74900KA2011PTC058715	ग्राफिटी होमडेकर्स प्राइवेट लिमिटेड
40	U80902KA2002PTC030420	वोइला कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
41	U72200KA2011PTC059134	बेरवोउच ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
42	U72200KA2010PTC055622	अक्कोलेड इनफार्मेशन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
43	U41000KA2008PTC047483	मुरली सेष एनवीरो टेक प्राइवेट लिमिटेड
44	U72900KA2011PTC060904	ईएल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
45	U72200KA2006PTC038428	अवेंडा सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
46	U72300KA2010PTC054462	एमटीए इन्फोमीडिआ प्राइवेट लिमिटेड
47	U24248KA2006PTC038474	ओम रामराम ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
48	U40108KA2009PTC048910	स्नेप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
49	U34300KA2010PTC056102	आर्यन्स पावर ट्रेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
50	U74990KA2011PTC057086	जरिसश ह्यूमन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
51	U72200KA2000PTC027709	सुइट्सऑनलाइन -इंडिया .कॉम प्राइवेट लिमिटेड
52	U74900KA2011PTC058645	लाइफलेमन ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
53	U45200KA2011PTC059739	एलेलांड एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड
54	U73100KA2006PTC038232	रिसर्च फॉर डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
55	U31909KA1983PTC005113	एलिशिमेट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
56	U52390KA2013PTC069977	पब्लिका ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
57	U72200KA2006PTC040110	फस्टलगत ऑनलाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
58	U73200KA2007PTC043508	इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर डेटा रिसर्च (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
59	U72200KA2004PTC035280	सीनेसिस मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
60	U92142KA2009PTC050943	अविया आर्ट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
61	U85110KA1992PTC013760	अलकॉ सिरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड
62	U72900KA1979PTC003656	कंप्यूटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
63	U45203KA2012PTC066137	श्री रेणुका पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
64	U40102KA2012PTC065728	श्री रेणुका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
65	U14290KA2012PTC066076	श्री रेणुका रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
66	U40104KA2012PTC065701	श्री रेणुका ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड
67	U72200KA2005PTC036016	फ़ास्ट फॉरवर्ड अप्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
68	U72200KA2010PTC053631	आर & एस कम्यून सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
69	U28910KA2011PTC057853	बाबड़ इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
70	U74900KA2012PTC066698	कॉन्क्वेस्ट आईटी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
71	U45202KA2011PTC059299	एमकेविके प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
72	U28920KA2005PTC036958	ट्रेड पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
73	U72200KA2013PTC069830	अडोबिआ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
74	U72900KA2012PTC065467	क्सप्लूरा लॉब्स प्राइवेट लिमिटेड
75	U22210KA2010PTC054014	जस्ट प्रिंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
76	U00155KA1993PTC014970	मन्दिअल गणीत (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
77	U72200KA2009PTC051110	रिसोर्सेज & ऑफशोर कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
78	U72900KA2009PTC049458	इन्वेंटूर इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
79	U55101KA2010PTC054408	गिअरअप कैफ़े प्राइवेट लिमिटेड
80	U45200KA2008PTC046245	फ्रीरबी एको-आर्ट रिसॉर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
81	U80300KA2012PTC064461	अक्षता चार्म एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
82	U24120KA2009PTC050339	आल फर्टिलिज़र्स & केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
83	U74140KA2007PTC042985	उषोदय मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
84	U74140KA2009PTC049988	हर्डशिप कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
85	U72100KA2009PTC051559	एस - क्यूब स्टोरेज सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
86	U51410KA2004PTC034990	पिविआर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
87	U85110KA2011PTC057904	ओजस वैननेस प्राइवेट लिमिटेड
88	U29297KA2000PTC027720	ब्रह्मा शक्ति हर्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
89	U72200KA2005PTC038101	बिज़नेस एंड डिसिशन सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
90	U74900KA2011PTC060447	स्त्रक्यो इंटिरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
91	U72200KA2011PTC060574	पीपल लीफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
92	U80301KA2012PTC063721	एमआईटीआईडी इंस्टिट्यूट ऑफ़ डीसाईन प्राइवेट लिमिटेड
93	U72200KA2008PTC047843	लोरवीस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
94	U52399KA2010PTC055517	डेलीगेट एडुकम रिटेल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
95	U32104KA2007PTC043794	वितेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
96	U15400KA2009PTC051883	अछातस स्पेशलिटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
97	U72900KA2011PTC059408	औरविज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
98	U27103KA2005PLC035999	जेके पेरिफेरल्स लिमिटेड
99	U70102KA2010PTC054368	वासवी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
100	U72200KA2008PTC047136	पिडुसॉफ्ट एम्बेडेड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
101	U92111KA2006PTC038769	दकसा क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
102	U72200KA2011PTC059621	इन्तेल्लिआ इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
103	U72200KA2010PTC052328	इल्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
104	U70102KA2007PTC044361	सनराज रियालटीएस प्राइवेट लिमिटेड
105	U73100KA2007PTC044491	फीटोमेडिसीन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
106	U24232KA2005PTC037673	सुविसी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
107	U72200KA2012PTC062699	डिजीट्रीम लॉब्स प्राइवेट लिमिटेड
108	U85100KA2008PTC046345	बॉडीलयन ब्यूटी & बॉडी केयर प्राइवेट लिमिटेड
109	U24293KA2007PTC044349	सुगंध एसेंशियल ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड
110	U45208KA2009PTC048979	ओपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
111	U51505KA2004PTC034696	सन्सिम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
112	U72200KA2010PTC052821	सुरफमोबी न्यू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
113	U18101KA1987PTC008309	अक्षय सिल्क्स प्राइवेट लिमिटेड
114	U01112KA2008PTC048688	अभय एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
115	U74140KA2004PTC034815	इन्स्पिरारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
116	U24246KA2003PTC032276	एकोक्लीन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
117	U80101KA1997PTC021625	गियर लर्निंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
118	U74110KA2009PTC051968	त्रियंज वि बीपीओ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
119	U15420KA2011PLC058414	चैतन्य शुगर्स लिमिटेड
120	U70100KA2011PTC057257	प्रेसीडेंसी शोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
121	U65991KA2009PTC051508	रिपेयर युवर इन्वेस्टमेंट्स अडवीसर्स प्राइवेट लिमिटेड
122	U22210KA2011PTC057557	सी ब्लूम न्यूज पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
123	U72900KA2012PTC065374	फर्स्टफुचरिस्टिक फिनान्सिअल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
124	U45202KA2011PTC056938	बी एफ डी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
125	U72100KA1999PTC024963	वर्चुअल टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड
126	U65993KA2008PTC047215	दीप्तिश इन्वेस्टमेंट्स एंड फण्ड अडवीसर्स प्राइवेट लिमिटेड
127	U72200KA2010PTC054718	इट इस इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफोर्मेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
128	U74130KA2009PTC050366	रैन्ट्री मार्किट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
129	U74999KA2008PLC046542	जेनिथ-आईब्रिड्ज एलपीओ लिमिटेड
130	U72200KA2011PTC060437	हम्मृकि सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
131	U27203KA1998PTC024080	वि.आर. फ्लेक्सपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
132	U70101KA2007PTC042222	पिरामिड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
133	U72200KA2009PTC051478	जैन टेक प्राइवेट लिमिटेड
134	U72900KA2000PTC027879	साची कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
135	U73100KA2007PTC044115	सिमट्रिक्स सिस्टम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
136	U72200KA2005PTC036117	श्रीकल्पी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
137	U80301KA2010PTC052868	जोब नेटवर्क सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
138	U17122KA2013PTC071782	फैब टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
139	U45201KA2007PTC044271	स्प्लेंडिड लाइफस्टाइल चलेट्स प्राइवेट लिमिटेड
140	U01131KA2007PTC043703	सेथुरामन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
141	U80212KA2012PTC064509	टी एल सी इंटरनेशनल स्कूल मैसूर प्राइवेट लिमिटेड
142	U67110KA2011PTC061241	सैम प्लेअसंतोन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
143	U40108KA2010PTC055924	नवश्री पावर प्राइवेट लिमिटेड
144	U52335KA2006PTC040431	ट्राई इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
145	U72200KA2013PTC071392	गेनोवि लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
146	U52390KA2011PTC057023	जेकेबराँस्को फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
147	U29118KA2006PTC040669	अल्फा बोसुन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
148	U13100KA2006PTC040021	चामुंडेश्वरी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
149	U13100KA2006PTC040017	दीपशिखा माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
150	U13100KA2006PTC040079	ड्रीम माइन स्केप मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
151	U13100KA2006PTC040022	दुर्गा माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
152	U13100KA2006PTC040047	एमएसडीसी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
153	U13100KA2006PTC040048	शुभा माइनिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
154	U63040KA2010PTC052817	एसएमपी एयर चार्टर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
155	U13100KA2006PTC040071	श्री दिनेश माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
156	U15490KA2012PTC064019	जूना फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
157	U72200KA2009PTC051337	स्मार्ट वौइस् टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
158	U13201KA2007PTC044442	एमडीपी माइनिंग एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
159	U26921KA1987PTC008208	अश्विनी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

सत्यजित रौल

सहायक कंपनी रजिस्ट्रार

कर्नाटक

Central Bureau of Investigation

New Delhi-110 003, the 11th June 2014

No. DPPERS.I/2014/0063/3/33/2009-PERS.I—Shri S.C.Shukla, relinquished the charge of the post of Additional Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 30/04/2014 on superannuation.

Deepika Suri
Deputy Director (Pers.)

No. DPPERS.I/2014/0064/3/85/2014-PERS.I—Shri U.K. Choudhary, relinquished the charge of the post of Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 30/04/2014(AN) on superannuation.

Deepika Suri
Deputy Director (Pers.)

The 14th June 2014

No. DP/Pers.I/2014/2049/3/54/2013-Pers.I--The President is pleased to appoint the following Dy. Supdt. of Police in the Central Bureau of Investigation on deputation/absorption basis with effect from the dates mentioned against their names :-

Sl. No.	Name of the Officer S/Shri	Mode	Date of appointment as Dy.SP
1	S.K.Mandal	Deputation	3.4.2013
2	Sushil Kumar	Deputation	8.4.2013
3	Paramjit Singh Kutlehria	Deputation	1.5.2013
4	S.N.Sharma	Deputation	14.5.2013
5	Ajay Kranti Sharma	Deputation	3.6.2013
6	Vijay Kumar	Deputation	3.6.2013
7	R.D.Sharma	Deputation	3.6.2013
8	Arjun Singh	Deputation	11.6.2013
9	Kamaljeet Singh	Deputation	12.6.2013
10	Sanjeev Kumar Singh	Deputation	19.6.2013
11	M.Krishna Mohan	Deputation	28.6.2013
12	Mukul Rawat	Deputation	1.7.2013
13	T.R.Newar	Deputation	22.7.2013
14	Awadh Raj Singh	Deputation	30.7.2013
15	Salil Kapoor	Deputation	16.9.2013
16	Sarvesh Kumar Yadav	Deputation	15.1.2014
17	Sham Dutt	Absorption	30.9.2013
18	N. R.Meena	Absorption	7.10.2013
19	R.K.Chadha	Absorption	9.1.2014

Deepika Suri
Dy. Director (Pers.)

The 18th June 2014

No. DPPERS.I/2014/0065/3/72/2012(Pt).--Shri G.Venkata Swami Goud, Sr.PP, CBI, ACB, Bangalore has relinquished the charge of the post of Senior Public Prosecutor, CBI with effect from the afternoon of 31.05.2014 on superannuation.

Deepika Suri
Dy. Director (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Directorate General,

Central Reserve Police Force,

New Delhi – 110 003, the 28th July 2010

No. O.II.3746/07-Pers (Mos)--On acceptance of his resignation from service by the competent authority, Dr.Shivaji Singh, MO (IRLA-7237), 180 Bn, CRPF has been struck off from the strength of the said unit wef. 01/7/2010(FN). Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force from 01/7/2010(FN).

T.Chandrasekharan
DIGP (Pers)

New Delhi – 110 003, the 12th June 2014

No. O.II.3957/13-Pers-MOs--Consequent on acceptance of his resignation by the competent authority, Dr. Ranvijay Pratap, Specialist Medical Officer(Pathology)/Dy. Comdt., IRLA 9845 of CH, CRPF, Ranchi relinquished the charge of his post on the afternoon of 02nd June, 2014. Accordingly, his name is deleted from the rolls of the Force wef. 02.06.2014(AN).

M. C. Panwar
DIGP(Pers)

No. O.II.3882/11-Pers-MOs--Consequent on acceptance of his resignation by the competent authority, Dr. Pranab Jyoti Deka, Specialist Medical Officer(Pathology)/Dy. Comdt., IRLA 8649 of CH, CRPF, Guwahati relinquished the charge of his post on the afternoon of 31st May, 2014. Accordingly, his name is deleted from the rolls of the Force wef. 31.05.2014(AN).

M. C. Panwar
DIGP(Pers)

The 13th June 2014

No. O.II-6661/2014-Pers-DA.4--Consequent on acceptance of his notice of resignation from Government service by the competent authority, Shri Ajeet Kumar, Deputy Commandant (IRLA-6661) of 44 Bn, CRPF has relinquished his post on 31/05/2014(AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 31/05/2014(AN).

M.C. PANWAR
DIG(Pers)

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 11th June 2014

No. 1/24/2008-Ad. III/517--Shri Ranjit Singh Doel, IAS (MH:98) holding the additional charge of the post of Director of Census Operations, Maharashtra is relieved from the post with effect from afternoon of 31.05.2014.

Ram Gopal
Under Secretary

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 5th June 2014

No. OE (E&C)/EIV/P/14-15/85

Sl No	Name	Designation	Date of retirement
1	Smt. Rajalakshmi N	Senior Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	31.05.2014 (Superannuation)
2	Smt. Rajalakshmi B (No.1)	Assistant Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	31.05.2014 (Superannuation)
3	Sri. Zachariah M Kochukanjiram	Assistant Accounts Officer, Branch Office, Ernakulam	31.05.2014 (Superannuation)

Sd/- ILLEGIBLE
Deputy Accountant General (Admn)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

MUMBAI - 85, the 16th June 2014

No. PD/6(2)/2013-R-III/2014/6906--Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Harish G. Sahu, Assistant Accountant, BARC, Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4800/- in this Research Centre with effect from the forenoon of 03.06.2014 on regular basis until further orders.

Muthulakshmi J.
Assistant Personnel Officer

Department of Atomic Energy

Mumbai 400 001, the 23rd June 2014

No.AEC-1(1)/14/7789 - In partial modification to this Department's notification No. AEC-1(1)/14/615 dated January 15, 2014, notifying the constitution of the Atomic Energy Commission (AEC) for the year 2014, the President is pleased to appoint Shri Nripendra Misra, Principal Secretary to Prime Minister and Shri Ajit Kumar Doval, National Security Advisor, as new Members of the AEC with effect from June 18, 2014.

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Dr. Ratan Kumar Sinha
Secretary to the Govt. of India
Department of Atomic energy | Chairman (ex-officio) |
| 2. | Shri Nripendra Misra
Principal Secretary to the Prime Minister | Member |
| 3. | Shri Ajit Kumar Doval
National Security Advisor | Member |
| 4. | Shri Ajit Kumar Seth
Cabinet Secretary | Member |
| 5. | Smt. Sujatha Singh
Foreign Secretary | Member |
| 6. | Shri Sudarsanam Srinivasan
Secretary to the Govt. of India | Member for Finance |
| 7. | Dr. M.R. Srinivasan
Former Chairman, AEC | Member |

- | | | |
|-----|--|--------|
| 8. | Prof. P. Rama Rao
Former Secretary, Dept. of Science & Technology | Member |
| 9. | Dr. Anil Kakodkar
Former Chairman, AEC &
Homi Bhabha Chair Professor | Member |
| 10. | Dr. R.B. Grover
Director, Homi Bhabha National Institute &
Homi Bhabha Chair Professor | Member |
| 11. | Shri Sekhar Basu
Director, Bhabha Atomic Research Centre | Member |

Arun Srivastava
Secretary to the Atomic Energy Commission

HEAVY WATER BOARD

Mumbai 400 094, the 21st February 2014

No. HWB/R/4(13)/2013-Vol.I/942--The President is pleased to appoint the following scientific Officers/Engineers Grade 'F' in the pay band of Rs. 37400-67000 + Grade Pay of Rs. 8700/- of Heavy Water Board (Central Office) / Heavy Water Plant (Kota/Tuticorin/Talcher/Manuguru) as Scientific Officer/Engineer Grade 'G' in the pay band with Grade Pay of Rs. 37400-67000 + Grade Pay of Rs. 8900/- with effect from the forenoon of the date mentioned against each in the same plant until further order :-

SR. NO.	NAME S/Shri	DIVISION/ UNIT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
1.	Smt. Reena Ghosh	HWB(C.O.)	01.07.2013
2.	Jaitul Haque	HWB(C.O.)	01.07.2013
3.	Dinesh Sharma	KOTA	01.07.2013
4.	K.Balasubramanian	TUTICORIN	01.07.2013
5.	Jayant Kumar Sundar Ray	TALCHER	01.07.2013
6.	Madapati Rama Venkata Rajesh	MANUGURU	01.07.2013
7.	Anne Ananda Rao	MANUGURU	01.07.2013
8.	Parameswaran Pillai Surendran	MANUGURU	01.07.2013

The above Officers relinquished the charge of lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

K. S. Pillai
Administrative Officer-III

Nuclear Fuel Complex

Hyderabad – 500 062, the 16th June 2014

No. NFC/PAR-I/03/48/843--The President is pleased to appoint Smt. M. Pushpa Rekha, Asst. Personnel Officer, EC No. 4555 to officiate as Administrative Officer-III in the Pay Band-3 of Rs.15600-39100 + GP Rs.6600 on adhoc basis from 05.02.2014 to 19.04.2014.

A. Jaya Krishna
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of companies act, 1956 and of the following companies

JAIPUR – 302001, the 18th June 2014

No.ROC /JPR/560(5)/724--Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved.

S. No.	Company No.	Company Name
1	2	3
01	028573	RADHIKA AGROBASE PRIVATE LIMITED
02	019494	ETERNAL HEART CARE CENTER PRIVATE LIMITED
03	028531	SHILPY VISHWAKARMA HOTEL AND RESORTS PRIVATE LIMITED
04	020886	JAINIR SOFTWARE AND SERVICES PRIVATE LIMITED
05	036293	ARAW RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
06	031563	ISHI INTERACTIVE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
07	039623	NAVIKA GLOBAL OUTSOURCING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
08	035670	SMALLBOARD INFOTECH PRIVATE LIMITED
09	024487	MAHAVEER BIOFUELS PRIVATE LIMITED
10	037769	SHREEMATESHWARI COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
11	025276	STAR BIOMASS POWER PRIVATE LIMITED
12	035100	JAINA SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
13	024856	SUPERFINE LANDMART PRIVATE LIMITED
14	024378	MINESH BUILDERS AND COLONIZERS PRIVATE LIMITED
15	030885	SHREE VINAYAK FUTURE VISION MARKETING PRIVATE LIMITED
16	021295	SHIVAMKRIPA CONSTRUCTION (ENGINEERING) PRIVATE LIMITED
17	034534	BENSON NOODLES PRIVATE LIMITED
18	032862	SPICE CHILLI HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED
19	034555	TRIVENI MAHIMA SPICES PRIVATE LIMITED
20	039853	GYANESH HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
21	025434	LUCRATIVE STOCKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
22	023021	SATYESH CHEMICALS PRIVATE LIMITED
23	034535	RATAN PRIME ISPAT PRIVATE LIMITED
24	034551	RAINBOW JUICE PRIVATE LIMITED
25	034550	NARAYAN KRIPA IRON IGNOTS PRIVATE LIMITED

1	2	3
26	034548	MOTHER MILK TOAST PRIVATE LIMITED
27	034556	MANORAMA CROCKERY PRIVATE LIMITED
28	034545	JYOTI MUSTARD OIL PRIVATE LIMITED
29	034554	HEALTHY ADDED MICRONUTRIENTS PRIVATE LIMITED
30	034547	GREEN BEE JAM AND JELLY PRIVATE LIMITED
31	034537	GAURI TEXPRINT PRIVATE LIMITED
32	034546	FUSION AUTO SILENCERS PRIVATE LIMITED
33	034542	CLASSIC PRIME PLASTIC PRIVATE LIMITED
34	032640	SHREEYA STONES PRIVATE LIMITED
35	026665	AMARNATH COLONIZERS PRIVATE LIMITED
36	037080	STARSTYLE BUILDHOME PRIVATE LIMITED
37	038728	SQUARE CUBE BUILDHOME PRIVATE LIMITED
38	034713	REECOSYS GREEN POWER PRIVATE LIMITED
39	015173	RAJASTHAN INFOMATICS PRIVATE LIMITED
40	035955	APPSWAY SOFTWARE PRIVATE LIMITED
41	023860	FREE SIZE JEWELLERY PRIVATE LIMITED
42	041126	TIRUPATI COMPUSOFT PRIVATE LIMITED
43	027223	SHREE CITY BUILDESTATE PRIVATE LIMITED
44	023504	KDK LANDMARK PRIVATE LIMITED
45	031802	SIMONA SAREES PRIVATE LIMITED
46	017236	JIN KUSHAL SURI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
47	005392	M.P. BLOCKS AND ALLIED PRODUCTS PVT. LTD.
48	043325	ROOF WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
49	018771	ANOKIWAVE DESIGN (INDIA) PRIVATE LIMITED
50	039459	ENMASSE AGRO INDIA LIMITED
51	035602	GEE AAR SCRAPS PRIVATE LIMITED
52	035457	DEEP JYOTI MULTITRADE PRIVATE LIMITED
53	021649	SUNLIGHT GARTEX PRIVATE LIMITED
54	016161	AM PLUS INFOTEK PRIVATE LIMITED
55	032907	SWARNBHUMI MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
56	031890	SWARN BHUMI TRADEMART INDIA PRIVATE LIMITED
57	032784	SYSTEM HUNDRED BIOTECH PRIVATE LIMITED
58	021826	ALTITUDES INFOTECH PVT LTD

1	2	3
59	019228	COSMOS TRADE PARK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
60	031094	SAURAV HOMES PRIVATE LIMITED
61	035102	QCD TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
62	029444	SAAR INFOTECH PRIVATE LIMITED
63	029564	VINAYAK UCG ENERGY PRIVATE LIMITED

IMRAN A. SIDDIQUI
Asstt. Registrar of Companies
-cum- Asstt. Official Liquidator
Rajasthan

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956 AND OF FOLLOWING COMPANIES

Cuttack-753014, the 30th May 2014

No. ROC/Sec. 560(5)/2014/692--Notice is hereby given pursuant to Sub- section (5) of the section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved.

Sl No.	No. of comp	Name of company
1	2	3
01	15-13807	SP MULTIPROJECTS AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
02	15-13808	ASHA INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
03	15-13809	ADBEST HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
04	15-13813	GOLDEN AGE WELLNESS MISSION LIMITED
05	15-13815	RIGHT PROTECTION SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
06	15-13816	VOTRA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
07	15-13818	STELLENT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
08	15-13821	IT INFOPARK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
09	15-13827	Golden Eyes Show Biz Private Limited
10	15-13831	SAI TECHNOPROJECTS PRIVATE LIMITED
11	15-13833	SOUTHERN REALCONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
12	15-13835	UBN SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
13	15-13838	EKDANT INFRATECH PRIVATE LIMITED
14	15-13839	JAY MATADI PRODUCTS MARKETING PRIVATE LIMITED
15	15-13840	SAM INFRA-PROJECTS PRIVATE LIMITED
16	15-13841	ANJANEYA ESTATES PRIVATE LIMITED
17	15-13844	SRIYA ESTCON PRIVATE LIMITED
18	15-13848	JS MININGS & LOGISTICS PRIVATE LIMITED

1	2	3
19	15-13849	SADGURU MOBILE RECHARGE SERVICES PRIVATE LIMITED
20	15-13859	GARDEN VIEW RESORTS PRIVATE LIMITED
21	15-13868	DIVINE DEVCON PRIVATE LIMITED
22	15-13873	KONARK AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
23	15-13874	SAHAJEE MASS MEDIA PRIVATE LIMITED
24	15-13881	STAR SEVEN MARKETING PRIVATE LIMITED
25	15-13882	SEVEN COLOURS MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED
26	15-13883	ZENITH ESTCON PRIVATE LIMITED
27	15-13884	NILACHAL ENGINEERING & CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
28	15-13887	DIGIMAA AUTOMATION ENGINEERING PRIVATE LIMITED
29	15-13888	D&D ESTCON PRIVATE LIMITED
30	15-13893	KUBERA BOITA PROJECTS PRIVATE LIMITED
31	15-13896	SHREE SAI GANESH AGRO LIMITED
32	15-13897	DEVASHRAM INFRA INDIA LIMITED
33	15-13901	OMM TECH AND PROPERTIES PRIVATE LIMITED
34	15-13902	HIKE SALES PRIVATE LIMITED
35	15-13904	REAP INDIA PRIVATE LIMITED
36	15-13905	BHARASHAA VENTURE LIMITED
37	15-13909	WINGS INFRA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
38	15-13911	OMM MULTISERVICES PRIVATE LIMITED
39	15-13912	BHAGABANSAI CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
40	15-13915	SANDIP INFOTECH PRIVATE LIMITED
41	15-13920	SAI SUNDAR REALCON PRIVATE LIMITED
42	15-13926	EASY TOUCH TRADING PRIVATE LIMITED
43	15-13927	EDIFY EDUVENTURE PRIVATE LIMITED
44	15-13929	LOGIN FASHIONS PRIVATE LIMITED
45	15-13931	IVORY HOOD INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
46	15-13932	MMP INFRA PRIVATE LIMITED
47	15-13936	BHAI BHAI REALCON PRIVATE LIMITED
48	15-13939	WISEMEN RESOURCES (INDIA) LIMITED
49	15-13944	ABI INCLUSIVE PRIVATE LIMITED
50	15-13948	AKM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
51	15-13950	CURE INDIA MEDICARE SERVICES PRIVATE LIMITED
52	15-13953	UTKAL WELLNESS SERVICES PRIVATE LIMITED

1	2	3
53	15-13954	STAR MULTI TECH SOLUTION PRIVATE LIMITED
54	15-13955	ZEOF BIOTECH PRIVATE LIMITED
55	15-13958	AVAS INDIA AGRO LIMITED
56	15-13961	L.N. FIRE-EX PRIVATE LIMITED
57	15-13963	Sai Smruti Engineering Private Limited
58	15-13965	FEDERAL EXIM & LOGISTICS PRIVATE LIMITED
59	15-13966	SWASTIK INDIA MULTIPROJECTS LIMITED
60	15-13968	IRIS TEXT PROCESSORS PRIVATE LIMITED
61	15-13969	BARBIL VENTURES PRIVATE LIMITED
62	15-13971	FUTURE VISION INFRATECH PRIVATE LIMITED
63	15-13973	INCA LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
64	15-13976	MATADI BIDULATA REALCON PRIVATE LIMITED
65	15-13979	SUNDARMANI METALLURGICAL PRIVATE LIMITED
66	15-13980	MELEKSYS TECHSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
67	15-13982	EVOS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
68	15-13983	ORITECH INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
69	15-13985	ZANDER TECH PROCESS PRIVATE LIMITED
70	15-13987	HEXAGON INFRA-PROJECTS PRIVATE LIMITED
71	15-13990	SARMISTHA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
72	15-13992	ORIYAN INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
73	15-13995	SAMIR TECHNO ENGINEERS PRIVATE LIMITED
74	15-13997	SHRADHA SABURI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
75	15-13999	MAA HINGULA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

C.K. DAS
ASST. REGISTRAR OF COMPANIES
ODISHA

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956 AND OF FOLLOWING COMPANIES

Cuttack-753014, the 19th June 2014

No. ROC/FTE/Sec. 560(5)/2014/771--Notice is hereby given pursuant to Sub- section (5) of the section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved.

Sl No.	No. of comp	Name of company
01	15-07047	PUSHPAK MINTECH PRIVATE LIMITED
02	15-07953	THAKUR FILL N FLY RIVATE LIMITED
03	15-15648	ACCUSON MEDITECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
04	15-16242	SSSN MARKETING PRIVATE LIMITED

B. MISHRA
ROC-cum-OL, ODISHA

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND OF THE FOLLOWING COMPANIES

BANGALORE, THE 20TH JUNE 2014

NO. ROC/560/(5) FTE- NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO SUB- SECTION (5) OF SECTION 560 OF THE COMPANIES ACT, 1956, THAT THE NAMES OF UNDER MENTIONED COMPANIES HAVE BEEN STRUCK OFF FROM THE REGISTER AND THE SAID COMPANIES STAND DISSOLVED:-

Sl. No.	CIN	Company name
1	2	3
1	U04520KA1987PTC008690	S.N.S. GALAXY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2	U72200KA2012PTC064022	DIGICLAN INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3	U72200KA2006PTC038524	SPI SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4	U65992KA1996PTC019594	VITTAL CHITS PRIVATE LIMITED
5	U70109KA2011PTC061314	NEETHI BUILDTECH PRIVATE LIMITED
6	U67190KA2008PTC046055	AMITA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED
7	U67120KA1985PTC006723	PUSKAR INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
8	U51102KA1997PTC022886	SRI BHUMI IMPEX PRIVATE LIMITED
9	U63040KA2009PTC050956	BLUE ORCHID HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
10	U51909KA2006PTC041305	S TRIAGNI COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
11	U93000KA2012PTC062044	E-KHOJ INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED
12	U72200KA2013PTC069241	NIPA Software Offshore Development Centre Private Limited
13	U55101KA2005PTC037894	YELLOW SAPPHIRE HOLIDAY HOMES PRIVATE LIMITED
14	U51900KA2010PTC055437	QUENCH IMPEX PRIVATE LIMITED
15	U80902KA2009PTC051602	NETLABS EDUCATION (INDIA) PRIVATE LIMITED
16	U51909KA2010PTC054324	HONEYBE DISTRIBUTORS INDIA PRIVATE LIMITED
17	U64202KA2006PTC040676	INFOKING CHANNEL ENTERTAINERS PRIVATE LIMITED
18	U74900KA2011PTC056509	LearnIt Academy Technology Private Limited
19	U51109KA2008PTC047179	RENATI BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
20	U24296KA2010PTC052475	RENATI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
21	U01409KA1994PTC015180	MAHOB AND ARCOT AGRO PRIVATE LIMITED
22	U72200KA2007PTC043561	IT Process Management Consulting India Private Limited
23	U74900KA2009PTC051828	LIFE SCIENCES HUB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
24	U72200KA2007PTC043604	SRDG SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
25	U72200KA2011PTC058409	PERIGEE BIP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
26	U72200KA2009PTC050192	EL TechInventio Solutions Private Limited
27	U72200KA2012PTC062082	Contcierge Software Private Limited
28	U25202KA2007PTC041472	SAI SAKTHI RAGAV PACKAGING PRIVATE LIMITED
29	U72900KA2002PTC030509	XSERVE INDIA PRIVATE LIMITED

1	2	3
30	U32108KA2008PTC046336	MAC TELE ACCESS PRIVATE LIMITED
31	U40101KA2010PTC052606	KUMARADHARA ENERGY PRIVATE LIMITED
32	U74110KA2003PTC032099	HSL INFOSEC CONSULTING PRIVATE LIMITED
33	U55101KA2008PTC046398	KINARA HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
34	U72200KA2005PTC036133	TAVARI SOFTWARE PRIVATE LIMITED
35	U74140KA2004PTC034518	TRANSFORMATION TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
36	U72200KA2005PTC037515	TECDOST SOFTWARE PRIVATE LIMITED
37	U74900KA2006PTC040292	PMN General Agencies Private Limited
38	U72200KA2011PTC057480	AAAYUR ENGINEERING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
39	U74900KA2011PTC058715	GRAPHITI HOMEDECORS PRIVATE LIMITED
40	U80902KA2002PTC030420	VOILA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
41	U72200KA2011PTC059134	BAREVOUCH ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
42	U72200KA2010PTC055622	ACCOLADE INFORMATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
43	U41000KA2008PTC047483	MURALI SESH ENVIRO TECH PRIVATE LIMITED
44	U72900KA2011PTC060904	EL SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
45	U72200KA2006PTC038428	Avenda Systems India Private Limited
46	U72300KA2010PTC054462	MTA INFOMEDIA PRIVATE LIMITED
47	U24248KA2006PTC038474	OM RAMRAM TRADING ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
48	U40108KA2009PTC048910	SNAP INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
49	U34300KA2010PTC056102	AARYANS POWER TRAIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
50	U74990KA2011PTC057086	ZRISSH HUMAN RESOURCES PRIVATE LIMITED
51	U72200KA2000PTC027709	SUITESONLINE -INDIA.COM PRIVATE LIMITED
52	U74900KA2011PTC058645	LifeLemon Online Services Private Limited
53	U45200KA2011PTC059739	ALLEYLAND ASSETS PRIVATE LIMITED
54	U73100KA2006PTC038232	RESEARCH FOR DEVELOPMENT INDIA PRIVATE LIMITED
55	U31909KA1983PTC005113	ELISHIMATE ELECTRONIC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
56	U52390KA2013PTC069977	PUBLICA TRADING PRIVATE LIMITED
57	U72200KA2006PTC040110	FIRSTLIGHT ONLINE INDIA PRIVATE LIMITED
58	U73200KA2007PTC043508	INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DATA RESEARCH (INDIA) PRIVATE LIMITED
59	U72200KA2004PTC035280	SYNESIS MEDIA INDIA PRIVATE LIMITED
60	U92142KA2009PTC050943	AVIYA ART CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
61	U85110KA1992PTC013760	ALCON CERAMICS PRIVATE LIMITED
62	U72900KA1979PTC003656	COMPUTER PRODUCTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
63	U45203KA2012PTC066137	SHREE RENUKA PORTS PRIVATE LIMITED

1	2	3
64	U40102KA2012PTC065728	Shree Renuka Energy Infrastructure Private Limited
65	U14290KA2012PTC066076	SHREE RENUKA RESOURCES PRIVATE LIMITED
66	U40104KA2012PTC065701	SHREE RENUKA URJA PRIVATE LIMITED
67	U72200KA2005PTC036016	FAST FORWARD APPLICATIONS PRIVATE LIMITED
68	U72200KA2010PTC053631	R & S COMMUNE SERVICES PRIVATE LIMITED
69	U28910KA2011PTC057853	BABBITT ENGINEERING PRIVATE LIMITED
70	U74900KA2012PTC066698	Conquest IT Services India Private Limited
71	U45202KA2011PTC059299	MKVK PROJECTS PRIVATE LIMITED
72	U28920KA2005PTC036958	TRADE POWER INDIA PRIVATE LIMITED
73	U72200KA2013PTC069830	Adovea Technologies Private Limited
74	U72900KA2012PTC065467	XPLOORA LABS PRIVATE LIMITED
75	U22210KA2010PTC054014	JUST PRINT SERVICES PRIVATE LIMITED
76	U00155KA1993PTC014970	MONDIAL GRANIT (INDIA)PRIVATE LIMITED
77	U72200KA2009PTC051110	Resources & Offshore Consulting India Private Limited
78	U72900KA2009PTC049458	ENVENTURE INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
79	U55101KA2010PTC054408	GEARUP CAFE PRIVATE LIMITED
80	U45200KA2008PTC046245	Free2B Eco-Art Resorts India Private Limited
81	U80300KA2012PTC064461	AKSHATHA CHARM EDUCATION PRIVATE LIMITED
82	U24120KA2009PTC050339	AAL FERTILIZERS & CHEMICALS PRIVATE LIMITED
83	U74140KA2007PTC042985	USHODAYA MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
84	U74140KA2009PTC049988	HerdShip Consultancy Private Limited
85	U72100KA2009PTC051559	S-CUBE STORAGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
86	U51410KA2004PTC034990	PVR ESTATES PRIVATE LIMITED
87	U85110KA2011PTC057904	Ojas Wellness Private Limited
88	U29297KA2000PTC027720	BRAHMA SHAKTHI HERBAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
89	U72200KA2005PTC038101	Business and Decision Software India Private Limited
90	U74900KA2011PTC060447	STRACON INTERIORS PRIVATE LIMITED
91	U72200KA2011PTC060574	PEEPAL LEAF TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
92	U80301KA2012PTC063721	MITID Institute of Design Private Limited
93	U72200KA2008PTC047843	Lorvis Software Technologies Private Limited
94	U52399KA2010PTC055517	Delhigate Educomm Retail Solutions Private Limited
95	U32104KA2007PTC043794	Vitech Technosolutions Private Limited
96	U15400KA2009PTC051883	ACHATES SPECIALITY FOODS PRIVATE LIMITED
97	U72900KA2011PTC059408	Aurviz Technology Private Limited

1	2	3
98	U27103KA2005PLC035999	JAYKAY PERIPHERALS LIMITED
99	U70102KA2010PTC054368	VASAVI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
100	U72200KA2008PTC047136	Pittasoft Embedded Solutions Private Limited
101	U92111KA2006PTC038769	DAKSAA CREATIONS PRIVATE LIMITED
102	U72200KA2011PTC059621	Intellia infosoft Private Limited
103	U72200KA2010PTC052328	ILMA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
104	U70102KA2007PTC044361	SUNRAJ Realities Private Limited
105	U73100KA2007PTC044491	PHYTOMEDISYN RESEARCH PRIVATE LIMITED
106	U24232KA2005PTC037673	SUVISI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
107	U72200KA2012PTC062699	DigiDream Labs Private Limited
108	U85100KA2008PTC046345	BODYLINE BEAUTY & BODY CARE PRIVATE LIMITED
109	U24293KA2007PTC044349	SUGANDH ESSENTIAL OILS PRIVATE LIMITED
110	U45208KA2009PTC048979	OPUL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
111	U51505KA2004PTC034696	SANSIM ELECTRONIX PRIVATE LIMITED
112	U72200KA2010PTC052821	SURFMOBEE NEW MEDIA PRIVATE LIMITED
113	U18101KA1987PTC008309	AKSHAYA SILKS PRIVATE LIMITED
114	U01112KA2008PTC048688	ABHAY AGRITECH PRIVATE LIMITED
115	U74140KA2004PTC034815	INSPIRARE STRATEGIC MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
116	U24246KA2003PTC032276	ECOCLEAN CHEMICALS PRIVATE LIMITED
117	U80101KA1997PTC021625	GEAR LEARNING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
118	U74110KA2009PTC051968	TRIANZ V BPO SERVICES PRIVATE LIMITED
119	U15420KA2011PLC058414	CHAITANYA SUGARS LIMITED
120	U70100KA2011PTC057257	Presidency Shelters Private Limited
121	U65991KA2009PTC051508	Repairyourinvestments Advisors Private Limited
122	U22210KA2011PTC057557	C BLOOM NEWS PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
123	U72900KA2012PTC065374	FIRSTFUTURISTIC FINANCIAL SOFTWARE PRIVATE LIMITED
124	U45202KA2011PTC056938	B F D DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
125	U72100KA1999PTC024963	VIRTUAL TECHNOLOGY PARK PRIVATE LIMITED
126	U65993KA2008PTC047215	DIPTISH INVESTMENTS AND FUND ADVISORS PRIVATE LIMITED
127	U72200KA2010PTC054718	IT IS INFORMATION TECHNOLOGY INFORMATION SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
128	U74130KA2009PTC050366	RAINTREE MARKET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
129	U74999KA2008PLC046542	Zenith-iBridge LPO Limited
130	U72200KA2011PTC060437	HAMMRUKI SYSTEMS PRIVATE LIMITED
131	U27203KA1998PTC024080	V.R. FLEXPack INDIA PRIVATE LIMITED

1	2	3
132	U70101KA2007PTC042222	Pyramid Holdings Private Limited
133	U72200KA2009PTC051478	ZEIN TECH PRIVATE LIMITED
134	U72900KA2000PTC027879	SACHI COMPUTERS PRIVATE LIMITED
135	U73100KA2007PTC044115	Simatrix System Technologies Private Limited
136	U72200KA2005PTC036117	SRIKALPI SOFTWARE PRIVATE LIMITED
137	U80301KA2010PTC052868	JobNetwork Services Private Limited
138	U17122KA2013PTC071782	FFAB TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED
139	U45201KA2007PTC044271	SPLENDID LIFESTYLE CHALET'S PRIVATE LIMITED
140	U01131KA2007PTC043703	Sethuraman Estates Private Limited
141	U80212KA2012PTC064509	TLC INTERNATIONAL SCHOOL MYSORE PRIVATE LIMITED
142	U67110KA2011PTC061241	SAM PLEASANTON HOLDINGS PRIVATE LIMITED
143	U40108KA2010PTC055924	Navashree Power Private Limited
144	U52335KA2006PTC040431	TRAYEE IMPEX PRIVATE LIMITED
145	U72200KA2013PTC071392	Genovi Life Sciences Private Limited
146	U52390KA2011PTC057023	JKBROSCO FOODS PRIVATE LIMITED
147	U29118KA2006PTC040669	ALPHA BOSUN TOOLS PRIVATE LIMITED
148	U13100KA2006PTC040021	CHAMUNDESHWARI MINING COMPANY PRIVATE LIMITED
149	U13100KA2006PTC040017	DEEPSHIKA MINING COMPANY PRIVATE LIMITED
150	U13100KA2006PTC040079	DREAM MINE SCAPE MINERALS PRIVATE LIMITED
151	U13100KA2006PTC040022	DURGA MINING COMPANY PRIVATE LIMITED
152	U13100KA2006PTC040047	MSDC MINING COMPANY PRIVATE LIMITED
153	U13100KA2006PTC040048	SHUBHA MINING IMPORT AND EXPORT PRIVATE LIMITED
154	U63040KA2010PTC052817	SMP AIR CHARTERS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
155	U13100KA2006PTC040071	SRI DINESH MINING COMPANY PRIVATE LIMITED
156	U15490KA2012PTC064019	ZUNAA FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
157	U72200KA2009PTC051337	SMART VOICE TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
158	U13201KA2007PTC044442	MDP Mining & Minerals Private Limited
159	U26921KA1987PTC008208	ASHWINI MINING COMPANY PRIVATE LIMITED

SATYAJIT ROUL
ASSISTANT REGISTRAR OF COMPANIES
KARNATAKA

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in